

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 'अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य' योजनान्तर्गत प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1378/XVII-B-1/2021-01(11)/2021, दिनांक 07.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 'अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य' योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि ₹ 300.00 लाख के सापेक्ष जनपद उधमसिंहनगर से संबंधित 30 निर्माण कार्य, जनपद नैनीताल से संबंधित 14 निर्माण कार्य तथा जनपद बागेश्वर से संबंधित 01 निर्माण कार्य, इस प्रकार कुल 45 निर्माण कार्यों हेतु कुल लागत ₹ 299.84 लाख धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त शासनादेश दिनांक 07.09.2021 को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के फलस्वरूप 'अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य' योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक क्षेत्रों का समावेश करते हुए निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4- उक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 2047 (1) / XVII-B-1 / 2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त गढवाल/कुमायूं, पौड़ी गढवाल/नैनीताल।
8. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/नैनीताल/बागेश्वर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/नैनीताल/बागेश्वर।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंहनगर/नैनीताल/ बागेश्वर।
11. संबंधित निर्माण इकाई (द्वारा-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण)।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राज्य योजना आयोग।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।